

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 22] नई दिल्ली, शनिवार, मई 31—जून 6, 2014 (ज्येष्ठ 10, 1936)

No. 22] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 31—JUNE 6, 2014 (JYAISTHA 10, 1936)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिस से कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित
अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by
the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 31 मई 2014

वायु शाखा

सं. 111, दिनांक 21 अप्रैल 2014—राष्ट्रपति, वा से आ 59/98 के प्रावधानों के तहत 187 पायलट कोर्स के निम्नलिखित अट्ठावन अफसरों को उनके नाम के आगे लिखी तारीखों से फ्लाईंग अफसर के रैंक में स्थायी कमीशन (परिवीक्षाधीन) और विंग्स प्रदान करते हैं। ये अफसर स्थायी कमीशन (परिवीक्षाधीन) और विंग्स प्रदान किए जाने की तारीख से उड़ान वेतन पाने के हकदार होंगे।

भारतीय वायु सेना

उड़ान (पायलट) शाखा

फ्लाइट कैडेट से फ्लाईंग अफसर के रैंक में

फ्लाईंग अफसर तेजस सुभाष क्वाले (31742), मुश्ताक अहमद (31743), प्रशान्त यादव (31744), विवेक प्रकाश जयकर (31745), अमनदीप सिंह सलारिया (31746), साहिल सरीन (31747), टी के सिवाकुमार (31749), अदयापालम सिवानन्द (31750), सुयोग गजानन वांखड़े (31751), सुशील कुमार शंकरराव शिंदे (31752), अमन बुधवार (31753), विवेक आनंद (31754), अमित कुमार दूबे (31755), बुर्लाकुता हरी कृष्ण (31756), एल्बिन कुरियाकोसे (31757),

पंकज बिजलवान (31758), प्रशांत कुमार (31759), इशान संजीव केलकर (31760), नमीश यादव (31761), संजीव तिमसिना (31762), श्रीजु बी नायर (31763), मोहम्मद सुहेल अजहर राथर (31764), स्वप्निल उत्तमराव डोंगरे (31765), आनंद जी कृष्णन (31767), विवेक कुमार जैयसवाल (31768), शैलेश कुमार तोमर (31769), विमल तिवारी (31770), संजय गणपत झबरवाल (31771), राकेश रमण (31772), मोहित चौधरी (31773), परितोष बंसल (31774), रवि मोहन चौधरी (31775), कलाइचेलवन विनोत वान्या (31776), अभिषेक गुरवारा (31777), शरद सौरभ (31780), रणविजय कुमार (31781), राकेश गिल (31782), अविनाश (31783), निकेत कर्नाटक (31784), अंकित अस्थाना (31785), संतोष सोपनराव सावंत (31786), शशिकांत अंकुश दामगुडे (31789), योगेश कांडपाल (31790), कंवर तपन जाम्वाल (31791), राकेश पांडे (31793), कुमार गौरव (31794), ज्योति प्रकाश परीदा (31795), दीपक सहगल (31797), श्रीकांत माडगी (31798), करण दुडगुंडी (31799),—18 जून 11 से प्रभावी ।

फ्लाईंग अफसर पिनाक अशोक कोडगुले (31884) —19 जून 11 से प्रभावी ।

फ्लाईंग अफसर जतिनजीत सिंह (31886), अभिनव कुल्हर (31887), संजीव कुमार (31888), दीपक गुलाटी (31889),—25 जून 11 से प्रभावी ।

फ्लाईंग अफसर सिद्धार्थ सिंह (31891) —03 जुलाई 11 से प्रभावी ।

राष्ट्रपति, 187 पायलट कोर्स के निम्नलिखित फ्लाइट कैडेटों को ए एफ ओ 59/98 के प्रावधानों के अन्तर्गत 18 जून 11 से फ्लाईंग अफसर के रैंक में स्थायी कमीशन (परखाधीन) और विंग्स प्रदान करते हैं। ये सभी अफसर स्थायी कमीशन (परखाधीन) एवं विंग्स प्राप्त होने की तारीख अर्थात् 18 जून 11 से फ्लाईंग वेतन पाने के हकदार हो जाएंगे।

भारतीय वायु सेना

फ्लाईंग (पायलट) शाखा

पूर्व फ्लाइट कैडेट से फ्लाईंग अफसर

फ्लाईंग अफसर जशांक सिंह सन्धु (31778), तुषार टंडन (31788) —18 जून 11 से प्रभावी ।

राष्ट्रपति, वायुसेना आदेश 59/98 के प्रावधानों के तहत 112 नेवीगेटर (187 पायलट कोर्स) के निम्नलिखित सात अफसरों को दिनांक 18 जून 2011 से भारतीय वायुसेना की उड़ान नेवीगेटर शाखा में स्थायी कमीशन (परिवीक्षधीन) तथा ब्रेवेट प्रदान करते हैं। ये अफसर स्थायी कमीशन एवं ब्रेवेट प्रदान किए जाने की तारीखों अर्थात् 18 जून 11 से उड़ान वेतन पाने के हकदार होंगे।

भारतीय वायु सेना

उड़ान (नेवीगेटर) शाखा

फ्लाइट कैडेट से फ्लाईंग अफसर के रैंक में

फ्लाईंग अफसर राहुल सिंह रजावत (31748), सागर कुमार (31766), आयुष अवस्थी (31779), निरंजन प्रभु (31787), प्रत्युष राज (31792), मनीष कुमार चौधरी (31796), हिमांशु कुमार गुप्ता (31800), —18 जून 11 से प्रभावी ।

राष्ट्रपति, वायुसेना अनुदेश 20/76 तथा वायुसेना आदेश 59/98 के प्रावधानों के तहत 09 एस ई सी(गैर-तकनीकी) के निम्नलिखित तीन फ्लाइट कैडेटों को उनके नाम के आगे लिखी तारीखों से फ्लाईंग अफसर के रैंक में स्थायी कमीशन प्रदान करते हैं।

भारतीय वायु सेना

फ्लाइट कैडेट से फ्लाईंग अफसर के रैंक में

प्रशासन शाखा

फ्लाईंग अफसर बी एस राजा शेखर (31813) —18 जून 11 से प्रभावी ।

संभारिकी शाखा

फ्लाईंग अफसर गौरी शंकर पाण्डे (31814) —18 जून 11 से प्रभावी ।

शिक्षा शाखा

फ्लाईंग अफसर सिद्ध नाथ सिंह (31815) —18 जून 11 से प्रभावी ।

राष्ट्रपति, वा से अनु 20/76 के प्रावधानों के अंतर्गत, निम्नलिखित फ्लाइट कैडेट (पूर्व वायुसैनिक) को उनके नाम के सामने दी गई तारीख से फ्लाईंग अफसर के रैंक में स्थायी कमीशन (परिवीक्षधीन) प्रदान करते हैं।

भारतीय वायुसेना

वैमानिक इंजीनियरी (इलेक्ट्रॉनिक्स) शाखा

फ्लाईंग अफसर धर्मज्ञ सिंह (32743), आनंद कुमार झा (32744), —07 जनवरी 2013 से प्रभावी

राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित ऑफिसरों (फ्लाइंग कैंडेड्स) को उनके नाम के सामने दी गई तिथि से वायु सेना अनुदेश 20/76 के उपबंधों के तहत स्थायी कमीशन (परखाधीन) प्रदान करते हैं।

भारतीय वायु सेना

ए ई एल शाखा

फ्लाइंग ऑफिसर कृष्ण मोहन सिंह (32365) —02 जुलाई 12 से प्रभावी।

राष्ट्रपति, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या वा से मु/24745/4/पी पी (ओ)/पी सी-1/184/डी एस/डी (वायु-III) दिनांक 23 अप्रैल 2001 के उपबंधों के तहत अधोलिखित अफसरों को फ्लाइंग अफसर के रैंक में अस्थाई अल्पकालिक सेवा कमीशन प्रदान करते हैं, जो उनके नामों के आगे लिखी तारीखों से प्रभावी होगा।

भारतीय वायु सेना

वैमानिक इंजीनियरी (यांत्रिकी) शाखा

फ्लाइंग अफसर प्रशान्त नागनाथ कदम (31940), तरेश कुमार (31941), विमलजीत सिंह (31942), सत्यामूर्थी एस (31943), थफशीन मुस्तफा (31944), प्रभाकर एन (31945), सुप्रिया एम भोसले (31975), —04 जुलाई 11 से प्रभावी।

फ्लाइंग अफसर जी अभिषेक (32006) —11 जुलाई 11 से प्रभावी।

फ्लाइंग अफसर संदीप कुमार (32025), सुमित कुमार (32026), परिभाषा साहा (32039) —17 जुलाई 11 से प्रभावी

वैमानिक इंजीनियरी (इलेक्ट्रॉनिकी) शाखा

फ्लाइंग अफसर सैमसन इलियास (31946), रविन्द्रा बाबू बथुला (31947), तुषार गुप्ता (31948), अंशुमान पाल (31949), विपिन चन्द्रा मंजुनाथ (31950), हेमन्त सुदेव (31951), अमिजीत कुमार (31952), मयंक के शर्मा (31954), संदेश एच एस (31955), सुबिन सुरेन्द्रन पिल्लै (31956), विकास गर्ग (31957), प्रसाद हिरेराड्डी (31958), भुवन सिंह बिष्ट (31959), शान्तनु सिंघल (31960), गौरव श्रीवास्तव (31961), दीपक उपाध्याय (31962), हिमांशु चौहान (31963), शुभेन्दु पाण्डेय (31964), चैतन्या (31965), मानस अवस्थी (31966), अरूण सिंह चानकर (31967), योगेश फोगट (31968), हरसिमरन सिंह मंगत (31969), विपुल कौशल (31970), विक्रम शुक्ला (31971), रेनजीत हेनरी (31972), अनिल कुमार बी (31973), आकाशदीप शर्मा (31974), भावना गाँधी (31976), वाई झॉसी रानी (31977), निर्मला देवी थिंगुजाम (31978), विनुथा गोउडागेरे रविन्द्रनाथ (31979), आकांक्षा शर्मा (31980), राजविन्दर कौर (31981), शाहीन खान (31982), दीपिका सेठी (31983), आशा शर्मा (31984), निशा (31985), मनीषा महतो (31986), स्नेहल किशोर सतीजा (31987), आकांक्षा शुक्ला (31988), रितिका पटेल (31989), श्रुति श्रीवास्तव (31990), अदिति राय (31991), सुरभि दत्ता (31992), निवेदिता अहलावत (31993), रिकी त्यागी (31995), ईशा (31996), शिवानी शर्मा (31998), श्वेता धिमन (32000), दिव्या पंडित (32001) —04 जुलाई 11 से प्रभावी।

फ्लाइंग अफसर आई शशिकांत (32009), विवियन कुमार सेबेस्टियन (32010), —15 जुलाई 11 से प्रभावी।

फ्लाइंग अफसर प्रदीप कुमार (32011), दलजीत सिंह (32012), राजीव कुमार (32013), अभिषेक गर्ग (32014), रोमिका (32015), मोनिका दूबे (32016), शुचि शुक्ला (32017), सीमा शर्मा (32018) —16 जुलाई 11 से प्रभावी।

फ्लाइंग अफसर निखिल कुमार जैयसवाल (32028), रोहित कुमार (32029), कुलबीर सिंह पटियल (32030), शिखर सिन्हा (32031), जी सवीन रेड्डी (32032), अभिषेक तोमर (32033), सुनीत श्रीवास्तव (32034), हर्षित टंडन (32035), पीयूष भारद्वाज (32036), गौरव (32037), अल्का नुपुर (32040),

—17 जुलाई 11 से प्रभावी।

राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या वा से मु/24745/4/पी पी (ओ)/पी सी-1/184/डी एस/डी (वायु-III) दिनांक 23 अप्रैल 2001 के प्रावधानों के तहत 50 एस एस सी (टी) के निम्नलिखित अफसरों को उनके नाम के आगे लिखी तारीखों से फ्लाइंग अफसर के रैंक में अस्थाई अल्पकालिक सेवा कमीशन प्रदान करते हैं।

भारतीय वायु सेना

वैमानिक इंजीनियरी (मैकेनिकल)

फ्लाइंग अफसर मनीष मधुकर शिंदे (31644), कार्तिक एस (31645), एम जी प्रसन्ना कुमार (31646), प्रतीक दत्ता (31647), युगंत मिश्रा (31648), मनुरिचा चौहान (31659), गरिष्मा कदंगोट (31661), दीप्ति बसावराज कोप्ती (31662), मानसा ए बी (31663), अश्विनी पाटिल जी (31664), —3 जनवरी 11 से प्रभावी

फ्लाइंग अफसर अजेश कुमार के (31710), —13 जनवरी 11 से प्रभावी।

फ्लाइंग अफसर प्रदीप टी (31718) —14 जनवरी 11 से प्रभावी।

वैमानिक इंजीनियरी (इलेक्ट्रॉनिकी)

फ्लाईंग अफसर राम गणेश के एस (31650), अभिषेक शर्मा (31651), नवदीप सूद (31652), गगनदीप मिश्रा (31653), आशीष मान (31654), तुमुलुरी वी एल एन मूर्ति (31655), रोहन चंदक (31656), राहुल रामपाल (31658), पवनप्रीत बेदी (31665), राशि वाष्ण्ये (31666), अंशिता शर्मा (31667), दीप्ति मदनसिंह परदेसी (31668), तरनजीत सिंह (31669), प्रज्ज्वलिता बरुआ (31670), साक्षी टंडन (31671), स्वाति सुब्रह्मण्यम (31672), रीता जोशी (31673), अनामिका चौधरी (31674), श्रुति मिश्रा (31675), साक्षी कोतवाल (31676), श्वेता राघव (31677), रीनु देवी (31678), रीना साहु (31679), विधि अग्रवाल (31680), प्रभु रश्मि वसंत (31681), प्रीति (31682), जसमीत कौर (31683), नेहा चौधरी (31685), गीतांजली सिंह (31686), खुशबू तिवारी (31687), श्रुति आर (31688), अर्जिता श्रीवास्तव (31689), नैनजोत कौर महल (31691), संवेदना चौधरी (31692), जाह्नवी नैलेष ठाकुर (31693), श्रेतिमा गोदारा (31696), अल्का पाल (31697), सोनम चौधरी (31698) —03 जनवरी 11 से प्रभावी।

फ्लाईंग अफसर ज्योति रानी (31704), —10 जनवरी 11 से प्रभावी।

फ्लाईंग अफसर दीपमाला साहु (31706), शिखा (31707) —11 जनवरी 11 से प्रभावी।

फ्लाईंग अफसर युवाक्षी मधु (31719), अनामिका झा (31720), मनीषा पटवाल (31721), विमल पोखारिया (31722), शलिनी सिंह (31723), लक्ष्मी आर (31724) —14 जनवरी 11 से प्रभावी।

फ्लाईंग अफसर अश्विन काले (31734), बृज मोहन (31735), अंजिता सुरेश (31736), रीतिका पंवर (31737), पूनम यादव (31738), मराठे नेहा विवेक (31739), नीतू राणा (31740) —15 जनवरी 11 से प्रभावी।

राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या वा से मु/एस 24745/4/पी पी (ओ)/पी सी-I/184/डी एस/डी (वायु-III) दिनांक 23 अप्रैल 2001 के प्रावधानों के तहत 21 एस एस सी (एम) जी डी ओ सी के निम्नलिखित इक्कीस अफसरों को उनके नाम के आगे लिखी तारीखों से अस्थायी अल्पकालिक सेवा कमीशन प्रदान करते हैं:—

भारतीय वायु सेना

फ्लाईंग अफसर बनने वाले पूर्व-फ्लाइट कैडेट

प्रशासनिक शाखा

फ्लाईंग अफसर चन्द्र शेखर पाण्डे (31842), रूपल जैन (31843), पप्पा राम (31844), मोहम्मद लशीन टी के (31845), विनीत मिश्रा (31846), योगेन्द्र सिंह (31847), आकाश शर्मा (31848), संदीप बोस (31849), हरीश वर्मा तिरुमाला राजू (31850), रवि कुमार (31851), रणप्रीत सिंह मारवाह (31852), दक्षेष् युवराज सिंह चौहान (31853), रवि चौहान (31854), मृगेश चंद राजवार (31855), श्रीनिवास अरुण कॉनडंया (31856) —18 जून 11 से प्रभावी।

फ्लाईंग अफसर अजय प्रताप भाटिया (31892) —03 जुलाई 11 से प्रभावी।

संभारिकी शाखा

फ्लाईंग अफसर विपिन तोमर (31857), अरुण ऐरी (31858), विक्की रमेश अग्रवाल (31859), मनोज कुमार (31860), शाही महेन्द्र अमर (31861) —18 जून 11 से प्रभावी।

राष्ट्रपति, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय, के पत्र संख्या वा से मु/एस 24745/4/पी पी (ओ)/पी सी-I/184/डी एस/डी (वायु-III) दिनांक 23 अप्रैल 2001 के प्रावधानों के तहत 35 एस एस सी (डब्ल्यू) जी डी ओ सी के निम्नलिखित अफसरों को अस्थायी अल्पकालिक सेवा कमीशन प्रदान करते हैं जो उनके नामों के आगे लिखी तारीखों से प्रभावी होगा:—

भारतीय वायु सेना

पूर्व-फ्लाइट कैडेट से फ्लाईंग अफसर के रैंक में

प्रशासनिक शाखा

फ्लाईंग अफसर चन्द्र निधि नारियाल (31237), कंवर ज्योति (31238), अधिप्री अग्रवाल (31239), शालिनी मददीराला (31240), जसवीन कौर साहनी (31241), शिवमजीत कौर (31242), विजय लक्ष्मी (31244), चंदन यादव (31245), शालिका शर्मा (31246), सोनिया (31247), बिन्दू (31248), स्वाति सिरोही (31249), दिव्या तिवारी (31250), हिमांशी बर्तवाल (31251), शुचिन्द्रा (31252), मंजू कुमारी (31253), कवलप्रीत बक्शी (31254) —19 जून 10 से प्रभावी।

संभारिकी शाखा

फ्लाईंग अफसर हरप्रीत कौर (31255), रेशु चौधरी (31256), शीतल त्रिपाठी (31257), मोनिका भारन (31258), तान्या सिंह (31259) —19 जून 2010 से प्रभावी।

लेखा शाखा

फ्लाईंग अफसर के देवा नंदिनी (31260), शिल्पा शर्मा (31261), उर्वशी रॉय (31262), प्राची सरीन (31263), पूजा नेगी (31264), अमनदीप कौर (31265), आराधना बेदी (31266) —19 जून 10 से प्रभावी।

शिक्षा शाखा

फ्लाईंग अफसर एवलिन टुडू (31267) —19 जून 10 से प्रभावी।

भारतीय वायु सेना

प्रशासनिक शाखा

फ्लाईंग अफसर दिशा मिश्रा (31243) —19 जून 10 से प्रभावी।

शिक्षा शाखा

फ्लाईंग अफसर मोहना चंद्रिका एस वी (31268) —19 जून 10 से प्रभावी।

राष्ट्रपति, वायुसेना आदेश 59/98 के प्रावधानों के तहत 78 ए ई के कोर्स के निम्नलिखित अफसरों को उनके नाम के आगे लिखी तारीखों से फ्लाईंग अफसर के रैंक में अल्पकालिक सेवा कमीशन (परिवीक्षणी) प्रदान करते हैं।

भारतीय वायु सेना

वैमानिकी इंजीनियरी (यांत्रिक) शाखा

फ्लाईंग अफसर मनोज कुमार (31630) 03 जनवरी 11 से प्रभावी।

राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या वा से मु/एस 24745/4/पी पी (ओ)/बी एम -IV दिनांक 14 जून 07 के प्रावधानों के तहत 112 नेवीगेटर [34 एस एस सी (डब्ल्यू) पायलट कोर्स] के निम्नलिखित अफसर को दिनांक 18 जून 2011 से भारतीय वायुसेना की उड़ान (नेवीगेटर) शाखा में अस्थायी अल्पकालिक सेवा कमीशन (पी एस एस सी) और ब्रेवेट प्रदान करते हैं। ये अफसर पी एस एस सी एवं ब्रेवेट प्रदान किए जाने की तारीख अर्थात् 18 जून 11 से उड़ान वेतन पाने के हकदार होंगे।

भारतीय वायु सेना

उड़ान (नेवीगेटर) शाखा

फ्लाइट कैडेट से फ्लाईंग अफसर के रैंक में

फ्लाईंग अफसर अपर्णा श्रीवास्तव (31867) 18 जून 11 से प्रभावी।

राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या वा से मु/एस 24745/4/पी पी (ओ)/बी एम -IV दिनांक 14 जून 07 के प्रावधानों के तहत 112 नेवीगेटर [05 एस एस सी (एम) पायलट कोर्स] के निम्नलिखित पाँच अफसरों को दिनांक 18 जून 2011 से भारतीय वायुसेना की उड़ान (नेवीगेटर) शाखा में अस्थायी अल्पकालिक सेवा कमीशन (पी एस एस सी) और ब्रेवेट प्रदान करते हैं। ये अफसर पी एस एस सी एवं ब्रेवेट प्रदान किए जाने की तारीख अर्थात् 18 जून 11 से उड़ान वेतन पाने के हकदार होंगे।

भारतीय वायु सेना

उड़ान (नेवीगेटर) शाखा

फ्लाइट कैडेट से फ्लाईंग अफसर के रैंक में

फ्लाईंग अफसर अनीश मेनन (31824), चंदन कुमार चौधरी (31836), सोमाय सी जी (31838), गगनदीप सिंह मारवाहा (31839), साहिल जैन (31841) 18 जून 11 से प्रभावी।

राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या वा से मु/एस 24745/4/पी पी (ओ)/पी सी- I/184/डी एस/डी (वायु-III) दिनांक 23 अप्रैल 01 के प्रावधानों के तहत 34 एस एस सी (डब्ल्यू) पायलट कोर्स के निम्नलिखित सात अफसरों को उनके नाम के आगे लिखी तारीखों से फ्लाईंग अफसर के रैंक में अस्थायी अल्पकालिक सेवा कमीशन तथा विंग्स प्रदान करते हैं। ये अफसर पी एस एस सी एवं विंग्स प्रदान किए जाने की तारीख से उड़ान वेतन पाने के हकदार होंगे।

भारतीय वायु सेना

उड़ान (पायलट) शाखा

फ्लाइट कैडेट से फ्लाईंग अफसर के रैंक में

फ्लाईंग अफसर कीर्ति (31862), गायत्री रामाचंद्रन नायर (31863), सुनैना मलिक (31864), सीमा शैरन (31865), अमृता एम (31866) —18 जून 11 से प्रभावी।

फ्लाईंग अफसर पल्लवी मोहापात्रा (31885) —19 जून 11 से प्रभावी।

फ्लाईंग अफसर निलोफर तारीक (31893) —18 जुलाई 11 से प्रभावी।

राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित यू/टी ऑफिसर को उनके नाम के सामने दी गई तिथि से वायु सेना आदेश 59/98 के उपबंधों के तहत औपबंधिक अल्पकालीन सेवा कमीशन प्रदान करते हैं।

भारतीय वायु सेना

मौसम शाखा

फ्लाईंग ऑफिसर धिरज कुमार सिंह (32002), —04 जुलाई 11 से प्रभावी

फ्लाईंग ऑफिसर राधाकान्त शर्मा शांगलकपम (32041)—17 जुलाई 11 से प्रभावी

फ्लाईंग ऑफिसर वास्कर ज्योति सिन्हा (31699) 03 जनवरी 11 से प्रभावी

फ्लाईंग ऑफिसर रुशिकेशपेदिना (31701)—07 जनवरी 11 से प्रभावी

राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित यू/टी ऑफिसर को उनके नाम के सामने दी गई तिथि से भारत सरकार रक्षा मंत्रालय पत्र संख्या वा से मू/24745/4/ पी पी (ओ)/पी सी. I/184/डीएस/एयर-III तारीख 23 अप्रैल 01 के उपबंधों के तहत औपबंधिक अल्पकालीन सेवा कमीशन प्रदान करते हैं।

भारतीय वायु सेना

मौसम शाखा

फ्लाईंग ऑफिसर ईहा जी (30345), —04 जनवरी 10 से प्रभावी

फ्लाईंग ऑफिसर मयूरी चोपड़ा (32362), —09 जनवरी 12 से प्रभावी

फ्लाईंग ऑफिसर मुंशी राजु बाबुभाई (32003) — 04 जुलाई 11 से प्रभावी

फ्लाईंग ऑफिसर चनप्रीत सिंह(32042) —17 जुलाई 11 से प्रभावी

राष्ट्रपति, वा से आ 59/98 के प्रावधानों के अंतर्गत, 80 ए ई सी के निम्नलिखित अफसरों को उनके नाम के सामने दी गई तारीख से फ्लाईंग अफसर के रैंक में अल्प सेवा कमीशन (परिवीक्षाधीन) प्रदान करते हैं।

भारतीय वायुसेना

वैमानिक इंजीनियरी (यांत्रिक) शाखा

फ्लाईंग अफसर तरुन चंदेल (32245), कलबली बेग सरकेल (32246), अभिनव कुमार आचार्य (32247), ऋषि राज (32248), क्षितिज (32249), अमर पाण्डे (32250), सजल श्याम सिंह (32251), —09 जनवरी 2012 से प्रभावी

वैमानिक इंजीनियरी (इलेक्ट्रॉनिक) शाखा

फ्लाईंग अफसर प्रवीण कुमार लक्ष्मणन (32253), नीनाद अंजली वामन (32254), सुभाजीत मजूमदार (32255), अभिनव अरुण पराशर (32256), अंकित सतीजा (32257), संजय सिंह चौहान (32258), शिवा (32259), सिद्धार्थ त्रिपाठी (32260), आसिफ नजीर बेग (32261), अवनीश कुमार सिंह (32262), शिखर अग्रवाल (32263), अनुराग कुमार सिंह (32264), प्रवेश शर्मा (32265), ब्रिस्टो थंकचन (32266), सरुजीत सिंह (32267), सुमित गहलावत (32268), लोकेश एस (32269), वैभव शर्मा (32270), लोकेश पुरोहित (32271), अभिजीत सुरेश पाटिल (32272), गुरासिस सिंह (32273), विवेक कुमार (32274), प्रथमेश जैन (32275), अंकुश राजपूत (32276), आशुतोष वर्मा (32277), एस विगनेश (32279), मनीष अरोड़ा (32280), रोहित गुप्ता (32281), श्रीराज आर (32282), अभिषेक (32283), विरेंद्र प्रताप सिंह (32284), सिबी क्रिस मैथ्यू (32285), अमित गुप्ता (32286), मनीष यादव (32287), विनय अतरी (32288), राहुल दाहिया (32289), प्रशांत कोचर (32290), रवि डब्ल्यू (32291), इन्द्र सेतिया (32292), अभिमन्यु सिंह (32293), सुधांशु त्यागी (32294), ए रंजीत (32295), रोहित (32296), कृपाल चौधरी (32297), संतोष मणि (32298), एबिन फ्रांसिस (32299), हिमांशु भण्डारी (32300), श्री रघु वामसी (32301), अरुण यादव (32302), —09 जनवरी 2012 से प्रभावी।

फ्लाईंग अफसर अरविंद कुमार कदियान (32363), —11 जनवरी 2012 से प्रभावी।

फ्लाईंग अफसर राहुल राधकृष्णन नायर (32364), —12 जनवरी 2012 से प्रभावी।

राष्ट्रपति, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय पत्र संख्या वा से मु/22258/1/पीओ 3(ए)/1611/डी ओ आई ए/डी (वायु-III) तारीख 19 अक्टूबर 82 के प्रावधानों के अंतर्गत, निम्नलिखित अफसर को उनके नाम के सामने लिखी तारीख से फ्लाईंग अफसर के रैंक में अस्थायी अल्प सेवा कमीशन प्रदान करते हैं।

भारतीय वायुसेना

वैमानिक इंजीनियरी (यांत्रिक) शाखा

फ्लाईंग अफसर सुशांत कुमार शर्मा (32244)—09 जनवरी 12 से प्रभावी

राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित यू/टी ऑफिसर को उनके नाम के सामने दी गई तिथि से भारत सरकार रक्षा मंत्रालय पत्र संख्या वा से मु/24745/4/ पी पी (ओ)/पी सी. I/184/डीएस/एयर-III तारीख 23 अप्रैल 01 के उपबंधों के तहत औपबंधिक अल्पकालीन सेवा कमीशन प्रदान करते हैं।

भारतीय वायु सेना

प्रशासनिक शाखा

फ्लाईंग ऑफिसर भीम बहादुर लामा (31222), बिनयदीप रावत (31223), शशांक सिंह भदोरया (31228), प्रवेश कुमार गोस्वामी (31229) —19 जून 2010 से प्रभावी।

राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित यू/टी ऑफिसर को उनके नाम के सामने दी गई तिथि से भारत सरकार रक्षा मंत्रालय पत्र संख्या वा से मु/24745/4/ पी पी (ओ)/पी सी. I/184/डीएस/एयर-III तारीख 23 अप्रैल 01 के उपबंधों के तहत औपबंधिक अल्पकालीन सेवा कमीशन प्रदान करते हैं।

भारतीय वायु सेना

ए इ एल शाखा

फ्लाईंग ऑफिसर रोचना शर्मा (31391), अर्चना कन्दासामी (31399) —05 जुलाई 10 से प्रभावी।

मननीय राष्ट्रपति महोदय, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या वा से मु/24745/4/पी पी (ओ)/पी सी-I/184/डी एस/डी (वायु-III) दिनांक 23 अप्रैल 2001 के उपबंधों के तहत निम्नलिखित अफसरों को फ्लाईंग अफसर के रैंक में प्रदान किए गए अस्थायी अल्प सेवा कमीशन समाप्त कर उन्हें अल्प सेवा कमीशन(परिवीक्षधीन) प्रदान करते हैं जो उनके नामों के आगे लिखी तारीखों से प्रभावी होगा।

भारतीय वायु सेना

वैमानिक इंजीनियरी (यांत्रिकी) शाखा

फ्लाईंग अफसर प्रशांत नागनाथ कदम (31940), तरेश कुमार (31941), बिमलजीत सिंह (31942), सत्यमूर्ति एस (31943), थफशिन मुस्तफा (31944), प्रभाकर एन (31945), जी अभिषेक (32006), संदीप कुमार (32025), सुमित कुमार (32026), सुप्रिया एम भोंसले (31975), परिभाषा साहा (32039), 02 जुलाई, 12 से प्रभावी।

वैमानिक इंजीनियरी (इलेक्ट्रॉनिकी) शाखा

फ्लाईंग अफसर सैमसन इलियास (31946), रविन्द्रा बाबू बथुला (31947), तुषार गुप्ता (31948), अंशुमान पाल (31949), विपिन चन्द्र मंजुनाथ (31950), हेमन्त सुदेव (31951), अभिजीत कुमार (31952), मयंक के शर्मा (31954), संदेग एच एस (31955), सुबिन सुरेन्द्रन पिल्लेई (31956), विकास गार्ग (31957), प्रसाद हिरेराड्डी (31958), भुवन सिंह बिष्ट (31959), शान्तनु सिंघल (31960), गौरव श्रीवास्तव (31961), दीपक उपाध्याय (31962), हिमांशु चौहान (31963), शुभेन्दु पाण्डेय (31964), चैतन्या (31965), मानस अवस्थी (31966), अरुण सिंह चोन्कर (31967), योगेश फोगट (31968), हरसिमरन सिंह मंगत (31969), विपुल कौशल (31970), विक्रम शुक्ला (31971), रेनजीत हेनरी (31972), अनिल कुमार बी (31973), आकाशदीप शर्मा (31974), आई शशिकांथ (32009), विवियन कुमार सेवास्टियन (32010), प्रदीप कुमार (32011), दलजीत सिंह (32012), राजीव कुमार (32013), अभिषेक गार्ग (32014), निखिल कुमार जैयसवाल (32028), रोहित कुमार (32029), कुबरीर सिंह पटियाल (32030), शिखर सिन्हा (32031), जी सजान रेड्डी (32032), अभिषेक तोमर (32033), सुनीत श्रीवास्तव (32034), हषिते टंडन (32035), पीयूष भारद्वाज (32036), गौरव (32037) — 02 जुलाई 2012 से प्रभावी

फ्लाईंग अफसर भावना गाँधी (31976), वाई झॉसी रानी (31977), निर्मला देवी थिंगुजाम (31978), विनुता गौडडागेरे रविन्द्रनाथ (31979), आकांक्षा शर्मा (31980), राजविंदर कौर (31981), शाहीन खान (31982), दीपिका सेठी (31983), आशा शर्मा (31984), निशा (31985), मनीषा महतो (31986), स्नेहल किशोर सतीजा (31987), आकांक्षा शुक्ला (31988), रितिका पटेल (31989), श्रुति श्रीवास्तव (31990), अदिति राय (31991), सुरभि दत्ता (31992), निवेदिता अहलावत (31993), रिकी त्यागी (31995), ईशा (31996), शिवानी शर्मा (31998), श्वेता धीमान (32000), दिव्या पण्डित (32001), रोमिका (32015), मोनिका दूबे (32016), शुचि शुक्ला (32017), सीमा शर्मा (32018), अल्का नूपुर (32040) —02 जुलाई 2012 से प्रभावी

राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या वा से मु/24745/4/पी पी (ओ)/पी सी-I/184/डी एस/डी (वायु- III) दिनांक 23 अप्रैल 2001 के प्रावधानों के तहत 50 एस एस सी (टी) के निम्नलिखित अफसरों को प्रदान की गई अस्थायी अल्प सेवा कमीशन समाप्त करते हैं तथा उनके नाम के आगे लिखी तारीख से फ्लाईंग अफसर के रैंक में अल्पकालिक सेवा कमीशन प्रदान करते हैं।

भारतीय वायु सेना

वैमानिक इंजीनियरी (यांत्रिक) शाखा

फ्लाईंग अफसर मनीष मधुकर शिंदे (31644), कार्तिक एस (31645), एम जी प्रसन्न कुमार (31646), प्रतीक दत्ता (31647), युगांत मिश्रा (31648), मनुरिचा चौहान (31659), ग्रीष्मा काडनगोट (31661), दीप्ति बसावराज कोप्ती (31662), मानासा ए बी (31663), अश्विनी पाटिल जी (31664), अजेश कुमार के (31710), प्रदीप टी (31718), 02 जनवरी 2012 से प्रभावी

वैमानिक इंजीनियरी (इलैक्ट्रॉनिक)

फ्लाईंग अफसर राम गणेश के एस (31650), अभिषेक शर्मा (31651), नवदीप सूद (31652), गगनदीप मिश्रा (31653), आशीष मान (31654), तुमुलुरी वी एल एन मूर्ति (31655), रोहन चंदक (31656), राहुल रामपाल (31658), पवनप्रीत बेदी (31665), राशि वाष्ण्य (31666), अंशिता शर्मा (31667), दीप्ति मदनसिंह परदेसी (31668), तरनजीत सिंह (31669), प्रज्वलिता बरुआ (31670), साक्षी टंडन (31671), स्वाति सुब्रह्मण्यम (31672), रीता जोशी (31673), अनामिका चौधरी (31674), श्रुति मिश्रा (31675), साक्षी कोतवाल (31676), श्वेता राघव (31677), रीनू देवी (31678), रीना साहु (31679), विधि अग्रवाल (31680), प्रमु रश्मि वसंत (31681), प्रीति (31682), जसमीत कौर (31683), नेहा चौधरी (31685), गीतांजली सिंह (31686), खुशबू तिवारी (31687), श्रुति आर (31688), अर्जिता श्रीवास्तव (31689), नैनजोत कौर महल (31691), संवेदना चौधरी (31692), जाह्नवी नैलेष ठाकुर (31693), श्रेतिमा गोदरा (31696), अल्का पाल (31697), सोनम चौधरी (31698), ज्योति रानी (31704), दीपमाला साहु (31706), शिखा (31707), युवाक्षी मधु (31719), अनामिका झा (31720), मनीषा पटवाल (31721), विमल पोखरिया (31722), शालिनी सिंह (31723), लक्ष्मी आर (31724), अश्विन काले (31734), बृज मोहन (31735), अंजिता सुरेश (31736), रीतिका पंवार (31737), पूनम यादव (31738), मराठे नेहा विवेक (31739), नीतू राणा (31740) —02 जनवरी 2012 से प्रभावी।

राष्ट्रपति, शुद्धिपत्र 10/84 के द्वारा यथासंशोधित वायुसेना आदेश 59/98 तथा वायुसेना अनुदेश 2/73 के प्रावधानों के तहत 78 ए ई सी के निम्नलिखित अफसरों को प्रदान की गई अल्पकालिक सेवा कमीशन (परिवीक्षधीन) को समाप्त करते हैं और उनके नाम के आगे लिखी तारीखों से उनको फ्लाईंग अफसर के रैंक में स्थायी कमीशन (परिवीक्षधीन) प्रदान करते हैं।

भारतीय वायु सेना

वैमानिकी इंजीनियरी (मैकेनिकल) शाखा

फ्लाईंग अफसर मनोज कुमार (31630) 02 जनवरी 12 से प्रभावी।

राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित यू/टी ऑफिसर को प्रदत्त औपबंधिक अल्पकालीन सेवा कमीशन समाप्त करते हैं तथा उनके नाम के सामने दी गई तिथि से वायु सेना आदेश 59/98 के उपबंधों के तहत स्थायी कमीशन (परखाधीन) प्रदान करते हैं।

भारतीय वायु सेना

यू/टी ऑफिसर से फ्लाईंग ऑफिसर के रैंक में

मौसम शाखा

फ्लाईंग ऑफिसर धिरज कुमार सिंह (32002), —30 जून 12 से प्रभावी

फ्लाईंग ऑफिसर राधाकान्ता शर्मा शांगलपकम (32041), —30 जून 12 से प्रभावी

फ्लाईंग ऑफिसर वास्कर ज्योति सिन्हा (31699) —29 दिसम्बर 11 से प्रभावी

फ्लाईंग ऑफिसर रुशिकेशपेदिना (31701) —29 दिसम्बर 11 से प्रभावी

राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित यू/टी ऑफिसर को प्रदत्त औपबंधिक अल्पकालीन सेवा कमीशन समाप्त करते हैं तथा उनके नाम के सामने दी गई तिथि से भारत सरकार रक्षा मंत्रालय पत्र संख्या वा से मू/24745/4/पी पी (ओ)/पी सी. I/184/ डीएस /एयर— III तारीख 23 अप्रैल 01 के उपबंधों के तहत अल्पकालीन सेवा कमीशन (परखाधीन) प्रदान करते हैं।

भारतीय वायु सेना

यू/टी ऑफिसर से फ्लाईंग ऑफिसर के रैंक में

मौसम शाखा

फ्लाईंग ऑफिसर ईहा जी (30345) —30 जून 12 से प्रभावी

फ्लाईंग ऑफिसर मयूरी चोपड़ा (32362), —15 दिसम्बर 12 से प्रभावी

फ्लाईंग ऑफिसर मुंशी राजु बाबुभाई (32003) —30 जून 12 से प्रभावी

फ्लाईंग ऑफिसर चनप्रीत सिंह (32042) —30 जून 12 से प्रभावी

राष्ट्रपति, वा से आ 59/98 तथा शुद्धिपत्र 10/84 द्वारा यथा संशोधित वा से अनु 2/73 के प्रावधानों के अंतर्गत, 80 ए ई सी के निम्नलिखित अफसरों का अल्प सेवा कमीशन (परिवीक्षधीन) समाप्त करते हैं तथा उन्हें, उनके नाम के सामने लिखी तारीख से स्थायी कमीशन (परिवीक्षधीन) प्रदान करते हैं।

भारतीय वायुसेना

वैमानिक इंजीनियरी (यांत्रिक) शाखा

फ्लाईंग अफसर तरुन चंदेल (32245), कलबली बेग सरकेल (32246), अभिनव कुमार आचार्य (32247), ऋषि राज (32248), क्षितिज (32249), अमर पाण्डे (32250), सजल श्याम सिंह (32251), 07 जनवरी 2013 से प्रभावी

वैमानिक इंजीनियरी (इलेक्ट्रॉनिक) शाखा

फ्लाईंग अफसर प्रवीण कुमार लक्ष्मणन (32253), नीनाद अंजली वामन (32254), सुभाजीत मजूमदार (32255), अभिनव अरुण पराशर (32256), अंकित सतीजा (32257), संजय सिंह चौहान (32258), शिवा (32259), सिद्धार्थ त्रिपाठी (32260), आसिफ नजीर बेग (32261), अवनीश कुमार सिंह (32262), शिखर अग्रवाल (32263), अनुराग कुमार सिंह (32264), प्रवेश शर्मा (32265), ब्रिस्टो थंकचन (32266), सरुजीत सिंह (32267), सुमित गहलावत (32268), लोकेश एस (32269), वैभव शर्मा (32270), लोकेश पुरोहित (32271), अभिजीत सुरेश पाटिल (32272), गुरासिस सिंह (32273), विवेक कुमार (32274), प्रथमेश जैन (32275), अंकुश राजपूत (32276), आशुतोष वर्मा (32277), एस विगनेश (32279), मनीष अरोड़ा (32280), रोहित गुप्ता (32281), श्रीराज आर (32282), अभिषेक (32283), वीरेंद्र प्रताप सिंह (32284), सिबी क्रिस मैथ्यू (32285), अमित गुप्ता (32286), मनीष यादव (32287), विनय अतरी (32288), राहुल दाहिया (32289), प्रशांत कोचर (32290), रवि डब्बीरू (32291), इन्द्र सेतिया (32292), अभिमन्यु सिंह (32293), सुधांशु त्यागी (32294), ए रंजीत (32295), रोहित (32296), कृपाल चौधरी (32297), संतोष मनी (32298), एबिन फ्रांसिस (32299), हिमांशु भण्डारी (32300), श्री रघु वामसी मोपीडेवी (32301), अरुण यादव (32302), अरविंद कुमार कदियान (32363), राहुल राधाकृष्णन नायर (32364), —07 जनवरी 2013 से प्रभावी ।

राष्ट्रपति, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय पत्र संख्या वा से मु/22258/1/पीओ 3(ए)/1611/डी ओ आई ए/डी (वायु-III) तारीख 19 अक्टूबर 82 के प्रावधानों के अंतर्गत, निम्नलिखित अफसर का अस्थायी अल्प सेवा कमीशन समाप्त करते हैं तथा उन्हें, उनके नाम के सामने लिखी तारीख से स्थायी कमीशन (परिवीक्षाधीन) प्रदान करते हैं।

भारतीय वायुसेना

वैमानिक इंजीनियरी (यांत्रिक) शाखा

फ्लाईंग अफसर सुशांत कुमार शर्मा (32244), 07 जनवरी 2013 से प्रभावी

राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित यू/टी ऑफिसर को प्रदत्त औपबंधिक अल्पकालीन सेवा कमीशन समाप्त करते हैं तथा उनके नाम के सामने दी गई तिथि से भारत सरकार रक्षा मंत्रालय पत्र संख्या वा से मु/24745/4/ पी पी (ओ)/पी सी. I/184/ डीएस /एयर-III तारीख 23 अप्रैल 01 के उपबंधों के तहत अल्पकालीन सेवा कमीशन (परिवीक्षा पर) प्रदान करते हैं।

भारतीय वायु सेना

ए इ एल शाखा

फ्लाईंग ऑफिसर रोचना शर्मा (31391), अर्चना कन्दासामी (31399)—30 जून 11 से प्रभावी।

तरुण खरे
विंग कमांडर
जे डी पी ओ 3(डी)

सं. 112, दिनांक 22 अप्रैल 2014—राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित अफसरों को उनके नाम के सामने दी गई तारीख से स्थायी कमीशन (परखाधीन) प्रदान करते हैं:—

भारतीय वायुसेना

प्रशासनिक शाखा

फ्लाईंग अफसर बी एस राजा सेखर (31428) प्रशा.

—18 जून 11 से प्रभावी।

संभारिकी शाखा

फ्लाईंग अफसर गौरी शंकर पाण्डेय (318141) संभा0

—18 जून 11 से प्रभावी।

शिक्षा शाखा

फ्लाईंग अफसर सिद्ध नाथ सिंह (31815) शिक्षा

—18 जून 11 से प्रभावी।

फ्लाईंग (पायलट) शाखा

फ्लाईंग अफसर प्रकाश बंदु शिंदे (31461)

—18 जून 11 से प्रभावी।

प्रशासनिक शाखा

फलाइंग अफसर

श्रीकांत मडगी

(31798) प्रशासन

— स्थायी करने की मंजूरी 25 जून 11 से प्रभावी।

फलाइंग (पायलट) शाखा

1	फलाइंग अफसर	मुश्ताक अहमद	31743
2	फलाइंग अफसर	प्रशांत यादव	31744
3	फलाइंग अफसर	विवेक प्रकाश जयकर	31745
4	फलाइंग अफसर	अमनदीप सिंह सलारिया	31746
5	फलाइंग अफसर	साहिल सरीन	31747
6	फलाइंग अफसर	सिवा कुमार टी के	31749
7	फलाइंग अफसर	ए शिवानन्द	31750
8	फलाइंग अफसर	सुर्यो ग गजानन वानखेड़े	31751
9	फलाइंग अफसर	सुशील शिंदे	31752
10	फलाइंग अफसर	अमन बुधवार	31753
11	फलाइंग अफसर	विवेक आनंद	31754
12	फलाइंग अफसर	अमित कुमार दूबे	31755
13	फलाइंग अफसर	बी हरि कृष्ण	31756
14	फलाइंग अफसर	अल्बिन कुरिकोसे	31757
15	फलाइंग अफसर	पंकज बिजलवान	31758
16	फलाइंग अफसर	प्रशांत कुमार	31759
17	फलाइंग अफसर	ईशान संजीव केलकर	31760
18	फलाइंग अफसर	नमीश यादव	31761
19	फलाइंग अफसर	संजीव तिमसिना	31762
20	फलाइंग अफसर	श्रीजू बी नायर	31763
21	फलाइंग अफसर	एम सुहेल राथेर	31764
22	फलाइंग अफसर	स्वप्निल दोंगरे	31765
23	फलाइंग अफसर	आनंद जी कृष्णन	31767
24	फलाइंग अफसर	विवेक कुमार जैयसवाल	31768
25	फलाइंग अफसर	शैलेश कुमार तोमर	31769
26	फलाइंग अफसर	विमल तिवारी	31770
27	फलाइंग अफसर	संजय झबरवाल	31771
28	फलाइंग अफसर	राकेश रमन	31772
29	फलाइंग अफसर	मोहित चौधरी	31773
30	फलाइंग अफसर	परितोष बंसल	31774
31	फलाइंग अफसर	रवि मोहन चौधरी	31775
32	फलाइंग अफसर	विनोथ वान्या	31776
33	फलाइंग अफसर	अभिषेक गुरवारा	31777

34	फलाइंग अफसर	जशांक सिंह संघु	31778
35	फलाइंग अफसर	शरद सौरभ	31780
36	फलाइंग अफसर	कुमार रणविजय	31781
37	फलाइंग अफसर	राकेश गिल	31782
38	फलाइंग अफसर	अविनाश	31783
39	फलाइंग अफसर	निकेत कर्नाटक	31784
40	फलाइंग अफसर	अंकित अशताना	31785
41	फलाइंग अफसर	संतोष सावंत	31786
42	फलाइंग अफसर	तुषार टंडन	31788
43	फलाइंग अफसर	शशिकांत दामगुडे	31789
44	फलाइंग अफसर	योगेश कांडपाल	31790
45	फलाइंग अफसर	कंवर तपन जामवाल	31791
46	फलाइंग अफसर	राकेश पाण्डे	31793
47	फलाइंग अफसर	कुमार गौरव	31794
48	फलाइंग अफसर	ज्योति प्रकाश परीदा	31795
49	फलाइंग अफसर	दीपक सहगल	31797
50	फलाइंग अफसर	करन डुडगुंडी	31799

—स्थायी करने की मंजूरी 18 जून 11 से प्रभावी
31884

51 फलाइंग अफसर पिनक अशोक कोडगुले

— स्थायी करने की मंजूरी 19 जून 11 से प्रभावी
31886

52 फलाइंग अफसर जतिनजीत सिंह

53 फलाइंग अफसर अभिनव कुल्हर 31887

54 फलाइंग अफसर संजीव कुमार 31888

55 फलाइंग अफसर दीपक गुलाटी 31889

— स्थायी करने की मंजूरी 25 जून 11 से प्रभावी
31891

56 फलाइंग अफसर सिद्धार्थ सिंह

— स्थायी करने की मंजूरी 03 जुलाई 11 से प्रभावी

फलाइंग अफसर

हितेश

31509

संभा0

—18 दिसम्बर 10 से प्रभावी

लेखा शाखा

फलाइंग अफसर रमेश नायर (31209) —19 जून 10 से प्रभावी।

राष्ट्रपति निम्नलिखित अफसर जिन्हें स्थायी कमीशन तथा ब्रेवेट (परखावधि पर) प्रदान किया गया है, को उनके नाम के सामने दी गई तारीख से स्थायी करते हैं :—

भारतीय वायु सेना

फलाईंग (नेवीगेटर) शाखा

फलाइंग अफसर राहुल सिंह रजावत (31748), एफ(एन), सागर कुमार (31766), एफ(एन), आयुष अवस्थी (31779), एफ(एन), निरंजन प्रभु (31787), एफ(एन) प्रत्युष राज (31792), एफ(एन), मनीष कुमार चौधरी (31796), हिमांशु कुमार गुप्ता (31800), एफ(एन), — स्थायी करने की मंजूरी 18 जून 11 से प्रभावी।

राष्ट्रपति, निम्नलिखित अफसरों को उनके नाम के सामने दी गई तारीख से स्थायी करते हैं जिन्हें अल्प सेवा कमीशन प्रदान किया गया था :—

भारतीय वायु सेना

उड़ान (पायलट) शाखा

पलाइंग अफसर	जूडे परेरा	31517	एफ(पी)
पलाइंग अफसर	हर्षद मोरे	31521	एफ(पी)
पलाइंग अफसर	ई सिबी चक्रवर्ती	31528	एफ(पी)
पलाइंग अफसर	चेतन पी राउत	31539	एफ(पी)
पलाइंग अफसर	सुहास एस नायर	31546	एफ(पी)
पलाइंग अफसर	वरुण विजय पांसे	31549	एफ(पी)

—18 दिसम्बर 10 से प्रभावी।

राष्ट्रपति, निम्नलिखित अफसरों को उनके नाम के सामने दी गई तारीख से स्थायी करते हैं जिन्हें अल्प सेवा कमीशन (परखाधीन) प्रदान किया गया था :—

भारतीय वायु सेना

प्रशासनिक शाखा

पलाइंग अफसर	अपराजिता सिंह	31568	प्रशा०
-------------	---------------	-------	--------

—18 दिसम्बर 2010 से प्रभावी

संभारिकी शाखा

पलाइंग अफसर	दिव्या लक्ष्मी एस	31583	संभा०
-------------	-------------------	-------	-------

—18 दिसम्बर 2010 से प्रभावी

प्रशासनिक शाखा

पलाइंग अफसर	चन्द्र शेखर पांडे	31842	प्रशा०
पलाइंग अफसर	रूपल जैन	31843	प्रशा०
पलाइंग अफसर	पप्पा राम	31844	प्रशा०
पलाइंग अफसर	लशीन टी के एम	31845	प्रशा०
पलाइंग अफसर	विनीत मिश्रा	31846	प्रशा०
पलाइंग अफसर	योगेन्द्र सिंह	31847	प्रशा०
पलाइंग अफसर	आकाश शर्मा	31848	प्रशा०
पलाइंग अफसर	संदीप बोस	31849	प्रशा०
पलाइंग अफसर	हरीश वर्मा तिरुमला राजू	31850	प्रशा०
पलाइंग अफसर	रवि कुमार	31851	प्रशा०
पलाइंग अफसर	रणप्रीत सिंह मारवाह	31852	प्रशा०
पलाइंग अफसर	दक्षेय युवराज सिंह चौहान	31853	प्रशा०
पलाइंग अफसर	रवि चौहान	31854	प्रशा०
पलाइंग अफसर	मृगेश चन्द राजवार	31855	प्रशा०
पलाइंग अफसर	एस अरुण कानडियां	31856	प्रशा०

—18 जून 2011 से प्रभावी

संभारिकी शाखा

पलाइंग अफसर	विपिन तोमर	31857	संभा0
पलाइंग अफसर	अरुण ऐरी	31858	संभा0
पलाइंग अफसर	विककी रमेश अग्रवाल	31859	संभा0
पलाइंग अफसर	मनोज कुमार	31860	संभा0
पलाइंग अफसर	शाही महेन्द्र अमर	31861	संभा0

—18 जून 2011 से प्रभावी

प्रशासनिक शाखा

पलाइंग अफसर	अजय प्रताप भाटिया	31892	प्रशा0
-------------	-------------------	-------	--------

—03 जुलाई 2011 से प्रभावी है

उड़ान (पायलट) शाखा

पलाइंग अफसर	कीर्ति	31862	एफ(पी)
पलाइंग अफसर	गायत्री आर नायर	31863	एफ(पी)
पलाइंग अफसर	सुनैहा मलिक	31864	एफ(पी)
पलाइंग अफसर	सीमा श्योराण	31865	एफ(पी)
पलाइंग अफसर	अमिता एम	31866	एफ(पी)
पलाइंग अफसर	निलोफर तारीक	31893	एफ(पी)

—18 जून 2011 से प्रभावी

उड़ान (नेवीगेटर) शाखा

पलाइंग अफसर	अपर्णा श्रीवास्तव	31867	एफ(एन)
-------------	-------------------	-------	--------

—18 जून 2011 से प्रभावी

तरुण खरे

विंग कमांडर

संयुक्त निदेशक, कार्मिक अफसर-3(डी)

MINISTRY OF DEFENCE
New Delhi, the 31st May 2014
AIR BRANCH

No. 111, dated 21st April 2014--The President is pleased to award Permanent Commission (On Probation) and Wings to the undermentioned fifty eight officers of 187 Pilot Course in the rank of Fg Offr wef the dates as mentioned against each, under the provisions of AFO 59/98. These officers will be eligible for grant of flying pay with effect from the date of grant of PC(On Probation) & Wings.

INDIAN AIR FORCE
FLYING (PILOT) BRANCH
EX FLIGHT CADETS TO BE FLYING OFFICERS

Fg Offr Tejas Subhas Kawale (31742), Mustaq Ahmed (31743), Prashant Yadav (31744), Vivek Prakash Jaikar (31745), Amandeep Singh Salaria (31746), Sahil Sarin (31747), TK Sivakumar (31749), Adayapalam Sivanand (31750), Suyog Gajanan Wankhade (31751), Sushilkumar Shankarrao Shinde (31752), Aman Budhwar (31753), Vivek Anand (31754), Amit Kumar Dubey (31755), Burlakunta Hari Krishna (31756), Albin Kuriakose (31757), Pankaj Bijalwan (31758), Prashant Kumar (31759), Ishan Sanjeev Kelkar (31760), Nameesh Yadav (31761), Sanjeev Timsina (31762), Sreeju B Nair (31763), Mohamad Suhail Azhar Rather (31764), Swapnil Uttamrao Dongare (31765), Anand G Krishnan (31767), Vivek Kumar Jaiswal (31768), Shailesh Kumar Tomer (31769), Vimal Tiwari (31770), Sanjay Ganpat Jhabarwal (31771), Rakesh Raman (31772), Mohit Choudhary (31773), Paritosh Bansal (31774), Ravi Mohan Choudhary (31775), Kalaichelvan Vinoth Vanya (31776), Abhishek Gurwara (31777), Sharad Saurabh (31780), Ranvijay Kumar (31781), Rakesh Gill (31782), Avinash (31783), Niket Karnatak (31784), Ankit Asthana (31785), Santosh Sopanrao Sawant (31786), Sashikant Ankush Damgude (31789), Yogesh Kandpal (31790), Kanwar Tapan Jamwal (31791), Rakesh Pandey (31793), Kumar Gaurav (31794), Jyoti Prakash Parida (31795), Deepak Sehgal (31797), Shrikant Madgi (31798), Karan Dudgundi (31799) wef 18 Jun 11.

Fg Offr Pinak Ashok Kodgule (31884) wef 19 Jun 11.

Fg Offr Jatinjeet Singh (31886), Abhinav Kulhar (31887), Sanjeev Kumar (31888), Deepak Gulati (31889) wef 25 Jun 11.

Fg Offr Siddharth Singh (31891) wef 03 Jul 11.

The President is pleased to award Permanent Commission (On Probation) and Wings to the undermentioned officers of 187 Pilot Course in the rank of Fg Offr wef the dates as mentioned against each, under the provisions of AFO 59/98. These officers will be eligible for grant of flying pay with effect from the date of grant of PC (On Probation) & Wings i.e. 18 Jun 11.

INDIAN AIR FORCE
FLYING (PILOT) BRANCH
EX FLIGHT CADETS TO BE FLYING OFFICERS

Fg Offr Jashank Singh Sandhu (31778), Tushar Tandon (31788), wef 18 Jun 11.

The President is pleased to award Permanent Commission (On Probation) and Brevets in the Flying (Navigator) branch of the IAF to the undermentioned seven officers of 112 NAV (187 Pilot Course) in the rank of Fg Offr wef 18 Jun 11 under the provisions of AFO 59/98. These officers will be eligible for grant of flying pay with effect from the date of grant of PC(On Probation) & Brevets i.e. 18 Jun 11.

INDIAN AIR FORCE
FLYING (NAVIGATOR) BRANCH
EX-FLIGHT CADETS TO BE FLYING OFFICERS

Fg Offr Rahul Singh Rajawat (31748), Sagar Kumar (31766), Ayush Awasthi (31779), Niranjana Prabhu (31787), Pratyush Raj (31792), Manish Kumar Chaudhary (31796), Himanshu Kumar Gupta (31800) wef 18 Jun 11.

The President is pleased to grant Permanent Commission (On Probation) to the undermentioned three Flt Cds of 09 SEC (Non Tech) in the rank of Fg Offr wef the dates as mentioned against their names under the provisions of AFI 20/76 and AFO 59/98.

INDIAN AIR FORCE
EX FLT CDTs TO BE FG OFFR
ADMINISTRATIVE BRANCH

Fg Offr BS Raja Sekhar (31813) wef 18 Jun 11.

LOGISTICS BRANCH

Fg Offr Gouri Sankar Pandey (31814) wef 18 Jun 11.

EDUCATION BRANCH

Fg Offr Siddh Nath Singh (31815) wef 18 Jun 11.

The President is pleased to grant Permanent Commission (On Probation) to the undermentioned Flt Cds (Ex-Airmen) in the rank of Fg Offr wef the dates mentioned against their names under the provisions of AFI 20/76.

INDIAN AIR FORCE

AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS) BRANCH

Fg Offr Dharmagya Singh (32743), Anand Kumar Jha (32744), wef 07 Jan 13.

The President is pleased to grant Permanent Commission (On Probation) to the undermentioned Flt Cdt in the rank of Fg Offr wef the dates mentioned against his name under the provisions of AFI 20/76.

INDIAN AIR FORCE

AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS) BRANCH

Fg Offr Krishna Mohan Singh (32365) wef 02 Jul 12

The President is pleased to grant Provisional Short Service Commission to the undermentioned officers of 51 SSC(T) wef the dates as mentioned against their names under the provisions of Govt. of India, Ministry of Defence letter No. Air HQ/24745/4/PP(O)/PC-I/184/DS/D(Air-III) dated 23 Apr 2001 in the rank of Flying Officer.

INDIAN AIR FORCE

AERONAUTICAL ENGINEERING (MECHANICALS)

Fg Offr Prashant Naganath Kadam (31940), Taresh Kumar (31941) Bimaljeet Singh (31942), Sathyamoorthy S (31943), Thafshin Mustafa (31944), Prabhakar N (31945), Supriya M Bhosale, (31975), wef 04 Jul 11

Fg Offr G Abhishek (32006), wef 11 Jul 11

Fg Offr Sandeep Kumar (32025), Sumit Kumar (32026), Paribhasha Saha (32039), wef 17 Jul 11

AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS)

Fg Offr Samson Elias (31946), Ravindra Babu Bathula (31947), Tushar Gupta (31948), Angshuman Pal (31949), Vipin Chandra Manjunatha (31950), Hemanth Sudev (31951), Amijeet Kumar (31952), Mayank K Sharma (31954), Sandesh HS (31955), Subin Surendran Pillai (31956), Vikas Garg (31957), Prasad Hireraddi (31958), Bhuwan Singh Bisht (31959), Shantanu Singhal (31960), Gaurav Shrivastava (31961), Deepak Upadhyay (31962), Himanshu Chouhan (31963), Shubhendu Pandey (31964), Chaitanya (31965), Manas Avasthi (31966), Arun Singh Chhonkar (31967), Yogesh Phogat (31968), Harsimran Singh Mangat (31969), Vipul Kaushal (31970), Vikram Shukla (31971), Renjit Henry (31972), Anil Kumar B (31973), Akashdeep Sharma (31974), Bhavna Gandhi (31976), Y Jhansi Rani (31977), Nirmala Devi Thingujam (31978), Vinutha Gowdagere Ravindranath (31979), Akanksha Sharma (31980), Rajwinder Kaur (31981), Shaheen Khan (31982), Deepika Sethi (31983), Asha Sharma (31984), Nisha (31985), Manisha Mahato (31986), Snehal Kishor Satija (31987), Akanksha Shukla (31988), Ritika Patel (31989), Shruti Shrivastava (31990), Aditi Rai (31991), Surabhi Datta (31992), Nivedita Ahlawat (31993), Rinki Tyagi (31995), Isha (31996), Shivani Sharma (31998), Shweta Dhiman (32000), Divya Pandit (32001), wef 04 Jul 11

Fg Offr I Shashi Kanth (32009), Vivien Kumar Sebastian (32010), wef 15 Jul 11

Fg Offr Pradeep Kumar (32011), Daljit Singh (32012), Rajeev Kumar (32013), Abhishek Garg (32014), Romika (32015), Monica Dubey (32016), Suchi Shukla (32017), Seema Sharma (32018), wef 16 Jul 11

Fg Offr Nikhil Kumar Jaiswal (32028), Rohit Kumar (32029), Kulbir Singh Patial (32030), Shikhar Sinha (32031), G Saveen Reddy (32032), Abhishek Tomar (32033), Sunet Srivastava (32034), Harshit Tandon (32035), Piyush Bhardwaj (32036), Gaurav (32037), Alka Nupur, (32040), wef 17 Jul 11

The President is pleased to grant Provisional Short Service Commission to the undermentioned officers of 50 SSC(T) wef the dates as mentioned against their names under the provisions of Govt of India, Ministry of Defence letter No. Air HQ/24745/4/PP(O)/PC-I/184/DS/D(Air-III) dated 23 Apr 2001 in the rank of Flying Officer.

INDIAN AIR FORCE

AERONAUTICAL ENGINEERING (MECHANICALS)

Fg Offr Manish Madhukar Shinde (31644), Karthik S (31645), MG Prasanna Kumar (31646), Pratik Datta (31647), Yugant Mishra (31648) Manuricha Chauhan (31659), Greeshma Kandangot (31661), Dipti Basavaraj Koshthi (31662), Manasa AB (31663), Ashwini Patil G (31664) wef 03 Jan 11

Fg Offr Ajesh Kumar K (31710) wef 13 Jan 11

Fg Offr Pradeep T (31718) wef 14 Jan 11

AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS)

Fg Offr Ram Ganesha KS (31650), Abhishek Sharma (31651), Navdeep Sood (31652), Gagan Deep Mishra (31653), Ashish Mann (31654), Tumuluri VLN Murthy (31655), Rohan Chandak (31656), Rahul Rampal (31658), Pawanpreet Bedi (31665), Rashi Varshney (31666), Anshita Sharma (31667), Deepti Madansingh Pardeshi (31668), Taranjit Singh (31669), Prajjwalita Boruah (31670), Sakshi Tandon (31671), Swathi Subrahmanian (31672), Reeta Joshi (31673), Anamika Choudhary (31674), Shruti Mishra (31675), Sakshi Kotwal (31676), Shweta Raghav (31677), Reenu Devi (31678), Reena Sahu (31679), Vidhi Agarwal (31680), Prabhu Rashmi Vasanth (31681), Preeti (31682), Jasmeet Kaur (31683), Neha Chaudhary (31685), Gitanjali Singh (31686), Khushboo Tiwari (31687), Shruthi R (31688), Arjita Srivastava (31689), Nainjot Kaur Mahal (31691), Samvedna Chaudhary (31692), Jahnvi Nailesh Thakur (31693), Shretima Godara (31696), Alka Pal (31697), Sonam Chaudhary (31698) wef 03 Jan 11

Fg Offr Jyoti Rani (31704) wef 10 Jan 11

Fg Offr Deepmala Sahu (31706), Shikha (31707) wef 11 Jan 11

Fg Offr Yuvakshi Maghu (31719), Anamika Jha (31720), Manisha Patwal (31721), Bimal Pokhria (31722), Shalini Singh (31723), Lakshmi R (31724) wef 14 Jan 11.

Fg Offr Ashwin Kale (31734), Brij Mohan (31735) Anjitha Suresh (31736), Reetika Panwar (31737), Poonam Yadav (31738), Marathe Neha Vivek (31739), Neetu Rana (31740) wef 15 Jan 11.

The President is pleased to grant Provisional Short Service Commission to the undermentioned twenty one officers of 21 SSC(M) GDOC wef the date as mentioned against their names under the provisions of Govt of India, Min of Def letter No. Air HQ/S 24745/4/PP(O)/PC-I/184/DS/D(Air-III) dated 23 Apr 01.

INDIAN AIR FORCE

EX-FLT CDTs TO BE FG OFFR

ADMINISTRATIVE BRANCH

Fg Offr Chandra Shekhar Pandey (31842), Roopal Jain (31843), Pappa Ram (31844), Mohammed Lasheen TK (31845), Vineet Mishra (31846), Yogender Singh (31847), Akash Sharma (31848), Sandeep Bose (31849), Harish Varma Tirumala Raju (31850), Ravi Kumar (31851), Ranpreet Singh Marwah (31852), Dakshesh Yuvraj Singh Chauhan (31853), Ravi Chauhan (31854), Mrigesh Chand Rajwar (31855), Srinivasa Arun Koundinya (31856) wef 18 Jun 11.

Fg Offr Ajay Pratap Bhatia (31892), wef 03 Jul 11.

LOGISTICS BRANCH

Fg Offr Vipin Tomer (31857), Arun Aeri (31858), Vicky Ramesh Agarwal (31859), Manoj Kumar (31860), Shahi Mahendra Amar (31861) wef 18 Jun 11.

The President is pleased to grant Provisional Short Service Commission to the undermentioned officer of 35 SSC(W) GDOC wef the date as mentioned against their names under the provisions of Govt of India, Min of Def letter No. Air HQ/S 24745/4/PP(O)/PC-I/184/DS/D(Air-III) dated 23 Apr 01.

INDIAN AIR FORCE

EX-FLT CDTs TO BE FG OFFR

ADMINISTRATIVE BRANCH

Fg Offr Nidhi Nariyal (31237), Kunwar Jyoti (31238), Adhishree Aggarwal (31239), Shalini Maddirala (31240), Jasween Kaur Sahani (31241), Shivamjit Kaur (31242), Vijay Laxmi (31244), Chandan Yadav (31245), Shalika Sharma (31246), Sonia (31247), Bindu (31248), Swati Sirohi (31249), Divya Tiwari (31250), Himanshi Bartwal (31251), Suchindra (31252), Manju Kumari (31253), Kawal Preet Bakshi (31254) wef 19 Jun 10.

LOGISTICS BRANCH

Fg Offr Harpreet Kaur (31255), Reshu Chaudhary (31256), Sheetal Tripathi (31257), Monica Bharan (31258), Tanya Singh (31259) wef 19 Jun 10.

ACCOUNTS BRANCH

Fg Offr K Deva Nandhini (31260), Shilpa Sharma (31261), Urvashi Roy (31262), Prachi Sarin (31263), Pooja Negi (31264), Ananddeep Kaur (31265), Aradhana Bedi (31266) wef 19 Jun 10.

EDUCATION BRANCH

Fg Offr Evelyn Tudu (31267) wef 19 Jun 10.

ADMINISTRATIVE BRANCH

Fg Offr Disha Mishra (31243) wef 19 Jun 10.

EDUCATION BRANCH

Fg Offr Mohana Chandrika SV (31268) wef 19 Jun 10.

The President is pleased to grant Short Service Commission (On Probation) to the undermentioned officer of 78 AE Course in the rank of Fg Offr wef the dates mentioned against their names under the provisions of AFO 59/98.

INDIAN AIR FORCE

AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS) BRANCH

Fg Offr Manoj Kumar (31630) wef 03 Jan 11.

The President is pleased to grant Provisional Short Service Commission (PSSC) and Brevets in Flying (Navigator) branch of the IAF to the undermentioned officer of 112 NAV 34 SSC(W) Pilot Course in the rank of Fg Offr wef 18 Jun 11 under the provisions of Govt of India, Ministry of Defence letter No. Air HQ/S 24745/4/PP(O)/BM-IV dated 14 Jun 07. The officer is eligible for flying pay wef the date of grant of PSSC & Brevets i.e. 18 Jun 11.

INDIAN AIR FORCE

FLYING (NAVIGATOR) BRANCH

EX-FLIGHT CADETS TO BE FLYING OFFICERS

Fg Offr Aparna Srivastav (31867) wef 18 Jun 11.

The President is pleased to grant Provisional Short Service Commission (PSSC) and Brevets in Flying (Navigator) branch of the IAF to the undermentioned five officers of 112 NAV 05 SSC(M) Pilot Course in the rank of Fg Offr wef 18 Jun 11 under the provisions of Govt of India, Ministry of Defence letter No. Air HQ/S 24745/4/PP(O)/BM-IV dated 14 Jun 07. These officers are eligible for flying pay wef the date of grant of PSSC & Brevets i.e. 18 Jun 11.

INDIAN AIR FORCE

FLYING (NAVIGATOR) BRANCH

EX-FLIGHT CADETS TO BE FLYING OFFICERS

Fg Offr Anish Menon (31824), Chandan Kumar Choudhary (31836), Somaiah CG (31838), Gagandeep Singh Marwaha (31839), Sahil Jain (31841) wef 18 Jun 11.

The President is pleased to grant Provisional Short Service Commission and Wings in Flying (Pilot) branch of the IAF to the undermentioned seven officers of 34 SSC(W) Pilot Course in the rank of Fg Offr wef the dates as mentioned against their names, under the provisions of Govt of India, Ministry of Defence letter No. Air HQ/S 24745/4/PP(O)/PC-I/184/DS/D(Air-III) dated 23 Apr 01. These officers are eligible for flying pay wef the dates of grant of PSSC & Wings.

INDIAN AIR FORCE

FLYING (PILOT) BRANCH

EX FLIGHT CADETS TO BE FLYING OFFICERS

Fg Offr Kirti (31862), Gayathri Ramachandran Nair (31863), Sunena Malik (31864), Seema Sheoran (31865), Amrita M (31866) wef 18 Jun 11.

Fg Offr Pallavi Mohapatra (31885) wef 19 Jun 11.

Fg Offr Nilofer Tariq (31893) wef 18 Jul 11.

The President is pleased to award Provisional Short Service Commission to the undermentioned U/T officers wef the date mentioned against their names under the provisions of AFO 59/98.

INDIAN AIR FORCE

MET BRANCH

Fg Offr Dheeraj Kumar Singh (32002), wef 04 Jul 11.

Fg Offr Radhakanta Sharma Shanglakpam (32041) wef 17 Jul 11.

Fg Offr Vaskar Jyoti Sinha (31699), wef 03 Jan 11.

Fg Offr Hrushikesh Pedina (31701) wef 07 Jan 11.

The President is pleased to grant Provisional Short Service Commission to the undermentioned U/T officers wef the date mentioned against their name under the provisions of Govt of India, Min of Def letter No. Air HQ/S 24745/4/PP(O)/PC-I/184/DS/D(Air-III) dated 23 Apr 01.

INDIAN AIR FORCE

MET BRANCH

Fg Offr Eeha Jee (32004), wef 04 Jan 10.

Fg Offr Mayuri Chopra (32362), wef 09 Jan 12.

Fg Offr Munshi Raju Babubhai (32003), wef 04 Jul 11

Fg Offr Chanpreet Singh (32042) wef 17 Jul 11

The President is pleased to grant Short Service Commission (On Probation) to the undermentioned officers of 80 AEC in the rank of Fg Offr wef the dates mentioned against their names under the provisions of AFO 59/98.

INDIAN AIR FORCE

AERONAUTICAL ENGINEERING (MECHANICAL) BRANCH

Fg Offr Tarun Chandel (32245), Kalbali Baig Serkail (32246), Abhinav Kumar Acharya (32247), Rishi Raj (32248), Kshitij (32249), Amar Pandey (32250), Sajal Shyam Singh (32251), wef 09 Jan 12.

AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS) BRANCH

Fg Offr Praveen Kumar Lakshmanan (32253), Ninad Anjali Waman (32254), Subhagit Majumdar (32255), Abhinav Arun Parashar (32256), Ankit Satija (32257), Sanjay Singh Chauhan (32258), Shiva (32259), Siddharth Tripathi (32260), Asif Nazir Beg (32261), Avnish Kumar Singh (32262), Shikhar Agrawal (32263), Anurag Kumar Singh (32264), Pravesh Sharma (32265), Bristow Thankachan (32266), Sarujit Singh (32267), Sumit Gahlawat (32268), Lokesh S (32269), Vaibhav Sharma (32270), Lokesh Purohit (32271), Abhijit Suresh Patil (32272), Guraasis Singh (32273), Vivek Kumar (32274), Prathmesh Jain (32275), Ankush Rajput (32276), Ashutosh Verma (32277), S Vignesh (32279), Manish Arora (32280), Rohit Gupta (32281), Sreeraj R (32282), Abhishek (32283), Virendra Pratap Singh (32284), Siby Chris Mathew (32285), Amit Gupta (32286), Manish Yadav (32287), Vinay Attri (32288), Rahul Dahiya (32289), Prashant Kochhar (32290), Ravi Dabbiru (32291), Inder Setia (32292), Abhimanyu Singh (32293), Sudhanshu Tyagi (32294), A Ranjith (32295), Rohit (32296), Kripal Chaudhary (32297), Santosh Mani (32298), Ebin Francis (32299), Himanshu Bhandari (32300), Sri Raghu Vamsi Mopidevi (32301), Arun Yadav (32302), wef 09 Jan 12.

Fg Offr Arvind Kumar Kadian (32363), wef 11 Jan 12.

Fg Offr Rahul Radhakrishnan Nair (32364), wef 12 Jan 12.

The President is pleased to grant Provisional Short Service Commission to the undermentioned officers in the rank of Fg Offr wef the dates as mentioned against their names under the provisions of Govt of India, Min of Def letter No. Air HQ/22258/ 1/PO3(A)/1611/DOIA/D(Air-III) dated 19 Oct 82.

INDIAN AIR FORCE

AERONAUTICAL ENGINEERING (MECHANICAL) BRANCH

Fg Offr Sushant Kumar Sharma (32244), wef 09 Jan 12.

The President is pleased to grant Provisional Short Service Commission to the undermentioned officers of 19 SSC(M) GDOC wef the date as mentioned against their names under the provisions of Govt of India, Min of Def letter No. Air HQ/S 24745/4/PP(O)/PC-I/184/DS/D(Air-III) dated 23 Apr 01.

INDIAN AIR FORCE

EX-FLT CDTs TO BE FG OFFR

ADMINISTRATIVE BRANCH

Fg Offr Bhim Bahadur Lama (31222), Binay Deep Rawat (31223), Shashank Singh Bhadoria (31228), Pravesh Kumar Goswami (31229) wef 19 Jun 10.

The President is pleased to grant Provisional Short Service Commission to the undermentioned officers of 49 SSC(T) wef the dates as mentioned against their names under the provisions of Govt of India, Ministry of Defence letter No. Air HQ/24745/4/PP(O)/PC-I/ 184/DS/D(Air-III) dated 23 Apr 2001 in the rank of Flying Officer.

INDIAN AIR FORCE

AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS)

Fg Offr Rochna Sharma (31391), Archana Kandasamy (31399) wef 05 Jul 10.

The President is pleased to terminate the Provisional Short Service Commission granted to the undermentioned officers of 51 SSC(T) and grant them Short Service Commission (On probation) wef the date as mentioned against their names under the provisions of Govt. of India, Ministry of Defence letter No. Air HQ/24745/4/PP(O)/PC-I/184/DS/D(Air-III) dated 23 Apr 2001 in the rank of Flying Officer.

INDIAN AIR FORCE

AERONAUTICAL ENGINEERING (MECHANICALS)

Fg Offr Prashant Naganath Kadam (31940), Taresh Kumar (31941), Bimaljeet Singh (31942), Sathyamoorthy S (31943), Thafshin Mustafa (31944), Prabhakar N (31945), G Abhishek (32006), Sandeep Kumar (32025), Sumit Kumar (32026), Supriya M Bhosale (31975), Paribhasha Saha (32039), wef 02 Jul 12

AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS)

Fg Offr Samson Elias (31946), Ravindra Babu Bathula (31947), Tushar Gupta (31948), Angshuman Pal (31949), Vipin Chandra Manjunatha (31950), Hemanth Sudev (31951), Amijeet Kumar (31952), Mayank K Sharma (31954), Sandesh HS (31955), Subin Surendran Pillai (31956), Vikas Garg (31957), Prasad Hireraddi (31958), Bhuwan Singh Bisht (31959), Shantanu Singhal (31960), Gaurav Shrivastava (31961), Deepak Upadhyay (31962), Himanshu Chouhan (31963), Shubhendu Pandey (31964), Chaitanya (31965), Manas Avasthi (31966), Arun Singh Chhonkar (31967), Yogesh Phogat (31968), Harsimran Singh Mangat (31969), Vipul Kaushal (31970), Vikram Shukla (31971), Renjit Henry (31972), Anil Kumar B (31973), Akashdeep Sharma (31974), I Shashi Kanth (32009), Vivien Kumar Sebastian (32010), Pradeep Kumar (32011), Daljit Singh (32012), Rajeev Kumar (32013), Abhishek Garg (32014), Nikhil Kumar Jaiswal (32028), Rohit Kumar (32029), Kulbir Singh Patial (32030), Shikhar Sinha (32031), G Saveen Reddy (32032), Abhishek Tomar (32033), Suneet Srivastava (32034), Harshit Tandon (32035), Piyush Bhardwaj (32036), Gaurav (32037), wef 02 Jul 12

Fg Offr Bhavna Gandhi (31976), Y Jhansi Rani (31977), Nirmala Devi Thingujam (31978), Vinutha Gowdagere Ravindranath (31979), Akanksha Sharma (31980), Rajwinder Kaur (31981), Shaheen Khan (31982), Deepika Sethi (31983), Asha Sharma (31984), Nisha (31985), Manisha Mahato (31986), Snehal Kishor Satija (31987), Akanksha Shukla (31988), Ritika Patel (31989), Shruti Shrivastava (31990), Aditi Rai (31991), Surabhi Datta (31992), Nivedita Ahlawat (31993), Rinki Tyagi (31995), Isha (31996), Shivani Sharma (31998), Shweta Dhiman (32000), Divya Pandit (32001), Romika (32015), Monica Dubey (32016), Suchi Shukla (32017), Seema Sharma (32018), Alka Nupur (32040), wef 02 Jul 12

The President is pleased to terminate the Provisional short Service Commission granted to the undermentioned officers of 50 SSC(T) and grant them Short Service Commission (On probation) wef the date as mentioned against their names under the provisions of Govt. of India, Ministry of Defence letter No. Air HQ/24745/4/PP(O)/PC-I/184/DS/D(Air-III) dated 23 Apr 2001 in the rank of Flying Officer.

INDIAN AIR FORCE

AERONAUTICAL ENGINEERING (MECHANICALS)

Fg Offr Manish Madhukar Shinde (31644), Karthik S (31645), MG Prasanna Kumar (31646), Pratik Datta (31647), Yugant Mishra (31648), Manuricha Chauhan (31659), Greeshma Kandangot (31661), Dipti Basavaraj Koshthi (31662), Manasa AB (31663), Ashwini Patil G (31664), Ajesh Kumar K (31710), Pradeep T (31718) wef 02 Jan 12.

AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS)

Fg Offr Ram Ganesha KS (31650), Abhishek Sharma (31651), Navdeep Sood (31652), Gagan Deep Mishra (31653), Ashish Mann (31654), Tumuluri VLN Murthy (31655), Rohan Chandak (31656), Rahul Rampal (31658), Pawanpreet Bedi (31665), Rashi Varshney (31666), Anshita Sharma (31667), Deepti Madansingh Pardeshi (31668), Taranjit Singh (31669), Prajjwalita Boruah (31670), Sakshi Tandon (31671), Swathi Subrahmanian (31672), Reeta Joshi (31673), Anamika Choudhary (31674), Shruti Mishra (31675), Sakshi Kotwal (31676), Shweta Raghav (31677), Reenu Devi (31678), Reena Sahu (31679), Vidhi Agarwal (31680), Prabhu Rashmi Vasanth (31681), Preeti (31682), Jasmeet Kaur (31683), Neha Chaudhary (31685), Gitanjali Singh (31686), Khushboo Tiwari (31687), Shruthi R (31688), Arjita Srivastava (31689), Nainjot Kaur Mahal (31691), Samvedna Chaudhary (31692), Jahnvi Naillesh Thakur (31693), Shretima Godara (31696), Alka Pal (31697), Sonam Chaudhary (31698), Jyoti Rani (31704), Deepmala Sahu (31706), Shikha (31707), Yuvakshi Maghu (31719), Anamika Jha (31720), Manisha Patwal (31721), Bimal Pokhria (31722), Shalini Singh (31723), Lakshmi R (31724), Ashwin Kale (31734), Brij Mohan (31735), Anjitha Suresh (31736), Reetika Panwar (31737), Poonam Yadav (31738), Marathe Neha Vivek (31739), Neetu Rana (31740) wef 02 Jan 12.

The President is pleased to terminate the Short Service Commission (on probation) granted to the undermentioned officer of 78 AEC and grant them Permanent Commission (On Probation) in the rank of Fg Offr wef the dates mentioned against their names under the provisions of AFO 59/98 and AFI 2/73 a/a by Corr 10/84.

INDIAN AIR FORCE

AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS) BRANCH

Fg Offr Manoj Kumar (31630) wef 02 Jan 12.

The President is pleased to terminate the Provisional Short Service Commission granted to the undermentioned officers and grant them Permanent Commission (On Probation) in the rank of Fg Offr wef the date mentioned against their names under the provisions of AFO 59/98

INDIAN AIR FORCE
U/T OFFICERS TO BE FG OFFR
METEOROLOGICAL BRANCH

Fg Offr Dheeraj Kumar Singh (32002), wef 30 Jun 12.

Fg Offr Radhakanta Sharma Shanglakhpam (32041) wef 30 Jun 12.

Fg Offr Vaskar Jyoti Sinha (31699), wef 29 Dec 11.

Fg Offr Hrushikesh Pedina (31701) wef 29 Dec 11.

The President is pleased to terminate the Provisional Short Service Commission and grant Short Service Commission (on probation) to the undermentioned U/T officers wef the date mentioned against their names under the provisions of Govt of India, Min of Def letter No. Air HQ/S 24745/4/PP(O)/PC-I/184/DS/D(Air-III) dated 23 Apr 01.

INDIAN AIR FORCE
U/T OFFR TO BE FG OFFR
METEOROLOGICAL BRANCH

Fg Offr Eeha Jee (32004), wef 30 Jun 12.

Fg Offr Mayuri Chopra (32362), wef 15 Dec 12.

Fg Offr Munshi Raju Babubhai (32003), wef 30 Jun 12

Fg Offr Chanpreet Singh (32042) wef 30 Jun 12

The President is pleased to terminate the Short Service Commission (on probation) granted to the undermentioned officers of 80 AEC and grant them Permanent Commission (On Probation) in the rank of Fg Offr wef the dates mentioned against their names under the provisions of AFO 59/98 and AFI 2/73 a/a by Corr 10/84.

INDIAN AIR FORCE
AERONAUTICAL ENGINEERING (MECHANICAL) BRANCH

Fg Offr Tarun Chandel (32245), Kalbali Baig Serkail (32246), Abhinav Kumar Acharya (32247), Rishi Raj (32248), Kshitij (32249), Amar Pandey (32250), Sajal Shyam Singh (32251), wef 07 Jan 13.

AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS) BRANCH

Fg Offr Praveen Kumar Lakshmanan (32253), Ninad Anjali Waman (32254), Subhajit Majumdar (32255), Abhinav Arun Parashar (32256), Ankit Satija (32257), Sanjay Singh Chauhan (32258), Shiva (32259), Siddharth Tripathi (32260), Asif Nazir Beg (32261), Avnish Kumar Singh (32262), Shikhar Agrawal (32263), Anurag Kumar Singh (32264), Pravesh Sharma (32265), Bristow Thankachan (32266), Sarujit Singh (32267), Sumit Gahlawat (32268), Lokesh S (32269), Vaibhav Sharma (32270), Lokesh Purohit (32271), Abhijit Suresh Patil (32272), Guraasis Singh (32273), Vivek Kumar (32274), Prathmesh Jain (32275), Ankush Rajput (32276), Ashutosh Verma (32277), S Vignesh (32279), Manish Arora (32280), Rohit Gupta (32281), Sreeraj R (32282), Abhishek (32283), Virendra Pratap Singh (32284), Siby Chris Mathew (32285), Amit Gupta (32286), Manish Yadav (32287), Vinay Attri (32288), Rahul Dahiya (32289), Prashant Kochhar (32290), Ravi Dabbiru (32291), Inder Setia (32292), Abhimanyu Singh (32293), Sudhanshu Tyagi (32294), A Ranjith (32295), Rohit (32296), Kripal Chaudhary (32297), Santosh Mani (32298), Ebin Francis (32299), Himanshu Bhandari (32300), Sri Raghu Vamsi Mopidevi (32301), Arun Yadav (32302), Arvind Kumar Kadian (32363), Rahul Radhakrishnan Nair (32364), wef 07 Jan 13.

The President is pleased to terminate the Provisional Short Service Commission granted to the undermentioned officers and grant them Permanent Commission (On Probation) in the rank of Fg Offr wef the dates mentioned against their names under the provisions of Govt. of India, Min of Def letter No. Air HQ/22258/ 1/PO3(A)/1611/DOIA/D(Air-III) dated 19 Oct 82.

INDIAN AIR FORCE
AERONAUTICAL ENGINEERING (MECHANICAL) BRANCH

Fg Offr Sushant Kumar Sharma (32244), wef 07 Jan 13.

The President is pleased to terminate the Provisional Short Service Commission granted to the undermentioned officer of 49 SSC(T) and grant them Short Service Commission (On probation) wef the date as mentioned against her name under the provisions of Govt of India, Ministry of Defence letter No. Air HQ/24745/4/PP(O)/PC-I/184/DS/D(Air-III) dated 23 Apr 2001 in the rank of Flying Officer.

INDIAN AIR FORCE
AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS)

Fg Offr Rochna Sharma (31391), Archana Kandasamy (31399) wef 30 Jun 11.

TARUN KHARE
Wg Cdr
JDPO-3(D)

AIR BRANCH

No. 112, dated 22nd April 2014--The President is pleased to confirmed the undermentioned officers were granted Permanent Commission, wef the date stated against their names:--

INDIAN AIR FORCE
ADMINISTRATIVE BRANCH

Fg Offr BS Raja Sekhar (31428) (ADM)

Confirmation wef 18 Jun 11.

LOGISTICS BRANCH

Fg Offr Gouri Sankar Pandey (318141) (LGS)

Confirmation wef 18 Jun 11.

EDUCATION BRANCH

Fg Offr Siddh Nath Singh (31815) (EDN)

Confirmation wef 18 Jun 11.

FLYING (PILOT)BRANCH

Fg Offr Prakash Bandu Shinde 31461

Confirmation wef 18 Dec 2010

ADM BRANCH

Fg Offr Shrikant Madgi 31798

Confirmation wef 18 Jun 2011

FLYING (PILOT) BRANCH

1.	Fg Offr	MUSTAQ AHMED	31743
2	Fg Offr	PRASHANT YADAV	31744
3	Fg Offr	VIVEK PRAKASH JAIKAR	31745
4	Fg Offr	AMANDEEP SINGH SALARIA	31746
5	Fg Offr	SAHIL SARIN	31747
6	Fg Offr	SIAVA KUMAR TK	31749
7	Fg Offr	A SHIVANAD	31750
8	Fg Offr	SUYONG GAJANAN WANKHADE	31751
9	Fg Offr	SUSHIL SHINDE	31752
10	Fg Offr	AMAN BUDHWAR	31753
11	Fg Offr	VIVEK ANAND	31754
12	Fg Offr	AMIT KUMAR DUBEY	31755
13	Fg Offr	B HARI KRISHAN	31756
14	Fg Offr	ALBIN KURIAKOSE	31757

15	Fg Offr	PANKAJ BIJALWAN	31758
16	Fg Offr	PRASANT KUMAR	31759
17	Fg Offr	ISHAN SANJEEV KELKAR	31760
18	Fg Offr	NAMEESH YADAV	31761
19	Fg Offr	SANJEEV TIMSINA	31762
20	Fg Offr	SREEJU B NAIR	31763
21	Fg Offr	M SUHAIL RATHAER	31764
22	Fg Offr	SWAPNIL DONGARE	31765
23	Fg Offr	ANAND G KRISHNAN	31767
24	Fg Offr	VIVEK KUMAR JAISWAL	31768
25	Fg Offr	SHAILESH KUMAR TOMAR	31769
26	Fg Offr	VIMAL TIWARI	31770
27	Fg Offr	SANJAY JHABARAWAL	31771
28	Fg Offr	RAKESH RAMAN	31772
29	Fg Offr	MOHIT CHAUDHARY	31773
30	Fg Offr	PARITOSH BANSAL	31774
31	Fg Offr	RAVI MOHAN CHOUDHARY	31775
32	Fg Offr	VINOTH VANYA	31776
33	Fg Offr	ABHISHEK GURWARA	31777
34	Fg Offr	JASHANK SINGH SANDHU	31778
35	Fg Offr	SHARAD SAURABH	31780
36	Fg Offr	KUMAR RANVIJAY	31781
37	Fg Offr	RAKESH GILL	31782
38	Fg Offr	AVINASH	31783
39	Fg Offr	NIKET KARNATAK	31784
40	Fg Offr	ANKIT ASHTANA	31785
41	Fg Offr	SANTOSH SAWANT	31786
42	Fg Off	TUSHAR TANDON	31788
43	Fg Offr	SASHIKANT DAMGUDE	31789
44	Fg Offr	YOGESH KANDPAL	31790
45	Fg Offr	KANWAR TAPAN JAMWAL	31791
46	Fg Offr	RAKESH PANDEY	31793
47	Fg Offr	KUMAR GAURAV	31794
48	Fg Offr	JYOTI PRAKASH PARIDA	31795
49	Fg Offr	DEEPAK SEHGAL	31797
50	Fg Offr	KARAN DUDGUNDI	31799
Confirmation wef 18 Jun 11			

51	Fg Offr	PINAK ASHOK KODGULE	31884
Confirmation wef 19 Jun 11			
52	Fg Offr	JATINJEET SINGH	31886
53	Fg Offr	ABHINAV KULHAR	31887
54	Fg Offr	SANJEEV KUMAR	31888
55	Fg Offr	DEEPAK GULATI	31889
Confirmation wef 25 Jun 11			
56	Fg Offr	SIDHARTH SINGH	31891
Confirmation wef 03 Jul 11			
LOGISTICS BRANCH			
Fg Offr	HITESH	31509	LGS
Confirmation wef 18 Dec 10			

ACCOUNTS BRANCH

Fg Offr Ramesh Nair (31209) Wef 19 Jun 10

The President is pleased to confirmed the undermentioned officers who were granted Permanent Commission and Brevets (On Probation) in flying (Navigator) Branch, wef the date stated against their names:--

INDIAN AIR FORCE
FLYING (NAVIGATOR) BRANCH

Fg Offr	RAHUL SINGH RAJAWAT	31748	F(N)
Fg Offr	SAGAR KUMAR	31766	F(N)
Fg Offr	AYUSH AWASTHI	31779	F(N)
Fg Offr	NIRANJAN PRABHU	31787	F(N)
Fg Offr	PRATYUSH RAJ	31792	F(N)
Fg Offr	MANISH KUMAR CHAUDHARY	31796	F(N)
Fg Offr	HIMANSHU KUMAR GUPTA	31800	F(N)
Confirmation wef 18 Jun 11			

The President is pleased to confirm the undermentioned officers who were granted Short Service Commission, wef the date stated against their names:--

INDIAN AIR FORCE
FLYING (PILOT) BRANCH

Fg Offr	JUDE JOSEPH PEREIRA	31518	F(P)
Fg Offr	HARSHAD BHAGWANT MORE	31521	F(P)
Fg Offr	E SIBI CHAKKRAVARTHY	31528	F(P)
Fg Offr	CHETAN P RAUT	31539	F(P)
Fg Offr	SUHAS S NAIR	31546	F(P)
Fg Offr	VARUN VIJAY PANSE	31549	F(P)
Wef 18 Dec 10			

The President is pleased to confirm the undermentioned officers who were granted Short Service Commission (on probation) wef the date stated against their names:--

INDIAN AIR FORCE
ADMINISTRATIVE BRANCH

Fg Offr	APARAJITA SINGH	31568	Adm
---------	-----------------	-------	-----

Confirmation.....wef 18 Dec 2010

LOGISTICS BRANCH

Fg Offr	DIVYA LAKXMI S	31583	Lgs
---------	----------------	-------	-----

Confirmation.....wef 18 Dec 2010

ADMINISTRATIVE BRANCH

Fg Offr	CHANDRA SHEKHAR PANDEY	31842	ADM
Fg Offr	ROOPAL JAIN	31843	ADM
Fg Offr	PAPPA RAM	31844	ADM
Fg Offr	LASHEEN TKM	31845	ADM
Fg Offr	VINEET MISHRA	31846	ADM
Fg Offr	YOGENDER SINGH	31847	ADM
Fg Offr	AKASH SHARMA	31848	ADM
Fg Offr	SANDEEP BOSE	31849	ADM
Fg Offr	HARISH VARMA TIRUMALA RAJU	31850	ADM
Fg Offr	RAVI KUMAR	31851	ADM
Fg Offr	RANPREET SINGH MARWAH	31852	ADM
Fg Offr	DAKSHESH YUVRAJ SINGH CHAUHAN	31853	ADM
Fg Offr	RAVI CHAUHAN	31854	ADM
Fg Offr	MRIGESH CHAN D RAJWAR	31855	ADM
Fg Offr	S ARUN KOUNDINYA	31856	ADM

Confirmation.....wef 18 Jun 2011

LOGISTICS BRANCH

Fg Offr	VIPIN TOMAR	31857	LGS
Fg Offr	ARUN AERI	31858	LGS
Fg Offr	VICKY RAMESH AGARWAL	31859	LGS
Fg Offr	MANOJ KUMAR	31860	LGS
Fg Offr	SHAHI MAHENDRA AMAR	31861	LGS

Confirmation.....wef 18 Jun 2011

ADMINISTRATIVE BRANCH

Fg Offr	AJAY PRATAP BHATIA	31892	ADM
---------	--------------------	-------	-----

Confirmation.....wef 03 Jul 2011

FLYING (PILOT) BRANCH

Fg Offr	KIRTI	31862	F(P)
Fg Offr	GAYATHRI R NAIR	31863	F(P)
Fg Offr	SUNENA MALIK	31864	F(P)
Fg Offr	SEEMA SHEORAN	31865	F(P)
Fg Offr	AMIRTA M	31866	F(P)
Fg Offr	NILOFER TARIQ	31893	F(P)

Confirmation.....wef 18 Jun 11

FLYING (NAVIGATOR) BRANCH

Fg Offr	APARNA SRIVASTAV	31867	F(N)
---------	------------------	-------	------

Confirmation.....wef 18 Jun 11

TARUN KHARE
Wg Cdr
JDPO-3(D)

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद
में मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2014

PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T.
FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2014

www.dop.nic.in